

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2018—आश्विन 12, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

अधि. क्र. 41-एफ-1-33-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद्, सिराली का गठन करती है, अर्थात् :-

सारणी

स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हरदा	सिराली	सिराली	1. सिराली
2			रामपुरा	1. रामपुरा 2. विक्रमपुर
3			मुहाड़िया	1. क्राम बंदी 2. मुहाड़िया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

पृष्ठांकन अधि. क्र. 41-एफ-1-33-2018-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक अधि. क्र. 41-एफ-1-33-2018-अठारह-3, दिनांक 4 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.

Bhopal, the 4th October 2018.

Notice No. 41-F-1-33-2018-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by section-5 (1) (B) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby pleased to include the areas Village Panchayat mentioned in the below table is notified as Municipal Council, Sirali, namely :—

TABLE

S. N.	District	Tehsil	Name of the village panchayat	Areas Included/ detail of Villages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Harda	Sirali	Sirali	1. Sirali
2			Rampura	1. Rampura 2. Vikrampur
3			Muhadiya	1. Kram Bandi 2. Muhadiya

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
LOKESH KUMAR JANGID, Dy. Secy.